

घर में प्रिंटर लगाकर छाप रहे थे नकली नोट, 12 लोग हिरासत में



Publish Date: Tue, 05 Jan 2021 07:07 AM (IST) Author: Jagran

गंगानगर में सोमवार को नकली नोट बनाने के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। यह सभी घर पर ही नकली नोट छाप रहे थे।

मेरठ, जेएनएन। गंगानगर में सोमवार को नकली नोट बनाने के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। यह सभी घर पर ही नकली नोट छाप रहे थे। राशन खरीदने के लिए महिला पास की एक दुकान पर नकली नोट लेकर पहुंची थी। शक होने पर दुकानदार ने पुलिस बुला ली। पुलिस ने महिला, उसकी बेटी, तीन अन्य युवती व सात युवकों को हिरासत में लिया है। घर से प्रिंटर व एक लाख दस हजार के नकली नोट बरामद हुए हैं। ये नोट दो सौ और पांच सौ के हैं। एसपी देहात ने सीओ सदर कार्यालय पहुंचकर पूछताछ की।

बी-ब्लाक निवासी एक दुकानदार ने पुलिस को एक महिला ग्राहक के पास 500 व 200 रुपये के नकली नोट होने की सूचना दी। वहां पहुंची पुलिस को दुकानदार ने बताया कि जो नोट महिला ने उसे दिया है, उसी सीरियल नंबर का नोट तीन दिन पहले उसकी बेटी भी दुकान पर लेकर पहुंची थी। पुलिस ने शक के आधार पर महिला को हिरासत में ले लिया और उसके घर पहुंची। वहां से कंप्यूटर, प्रिंटर, कागज और 500 व 200 रुपये के एक लाख दस हजार के नकली नोट बरामद किए। एसपी देहात ने भी महिला व उसकी बेटी से पूछताछ की। उसके आधार पर पुलिस उसकी साथी तीन युवतियों व सात युवकों को हिरासत में लेकर थाने ले आई। बताया जा रहा है कि रैकेट का सरगना एक महिला और एक पुरुष है। पुलिस ने पिलखुवा में भी दबिश दी लेकिन युवक हथ्थे नहीं चढ़ा। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का राजफाश किया जाएगा। सभी से पूछताछ की जा रही है।

साजिद की मां की पैरोल के लिए काटे चक्कर

जिला कारागार के शौचालय में रविवार को दहेज हत्या के आरोप में बंद बंदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। स्वजन ने हत्या का आरोप लगाते हुए मेडिकल थाने में तहरीर दी थी। सोमवार को साजिद का शव उसके घर पहुंचा और उसे सुपुर्द-ए-खाक किया गया। साजिद की मां आशिया की पैरोल के लिए स्वजन अधिकारियों के चक्कर काटते रहे। लेकिन उसे पैरोल नहीं मिली। दरअसल, लिसाड़ी गेट के लक्खीपुरा निवासी साजिद का निकाह किठौर क्षेत्र के ग्राम सरावनी निवासी रिहाना से हुई थी। बीते 23 सितंबर को रिहाना ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। मायके वालों ने साजिद उसके भाई नाजिम, मां आशिया व बहन अंजुम औं भांजी इकरा पर मुकदमा कराया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साजिद को जेल भेज दिया था। रविवार को जेल के शौचालय में साजिद ने आत्महत्या कर ली थी।

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/meerut-city-fake-notes-were-printed-by-putting-printers-in-the-house-many-in-custody-21239427.html>